

छत्तीसगढ़ में तेंदुए का अवैध शिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत चैतमा वन परिक्षेत्र में लगभग सात वर्ष के [तेंदुए](#) का शव मिला था।

मुख्य बदि:

- अधिकारियों के अनुसार तेंदुए के शरीर के कुछ अंग गायब थे जिससे अवैध शिकार की अटकलें लगाई जा रही थीं।
- **सींग, दाँत, खाल या हड्डियाँ** जैसे वांछनीय शरीर के अंगों को बेचने के उद्देश्य से प्रायः वन्यजीवों का **अवैध शिकार, आखेट या हत्या** कर दी जाती है।
 - भारत के **वन्यजीव अपराध नयित्रण ब्यूरो (WCCB)** और संलग्न पुलिस अधिकारियों से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2012 और 2018 के दौरान 9,253 से अधिक शिकारियों को गरिफ्तार किया गया, लेकिन सज़ा की दर सरिफ 2% थी।
- **अवैध वन्यजीव व्यापार** उच्च लाभ मार्जनि और यहाँ तक कि कई मामलों में दुर्लभ प्रजातियों के लिये चुकाई जाने वाली **ऊँची कीमतों से प्रेरित होते हैं**।
- जब प्रकृति में मानव उपभोग की दर को बनाए रखने के लिये प्राकृतिक भंडार का पुनर्भरण नहीं हो पाता है तो कमज़ोर वन्य जीव वल्लिपत्ता की कगार पर चले जाते हैं।
- **वन्य जीवों का अवैध शिकार** विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड और असम **राज्यों में प्रचलित है**।

तेंदुए



- **वैज्ञानिक नाम:** पैंथेरा पारडस (*Panthera pardus*)
- **परचिय:**
 - पैंथेरा जीनस के सबसे छोटे सदस्य के रूप में **बाघ, शेर** (पैंथेरा लियो), **जगुआर, तेंदुए** तथा **हमि तेंदुए** आदि शामिल हैं, तेंदुए वभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिये अपनी अनुकूलन क्षमता के लिये प्रसिद्ध है।
 - यह एक रात्रचिर जानवर है जो रात में शिकार करता है।

- यह जंगली सूअर, हॉग हरिण एवं चीतल सहति अपने क्षेत्र में छोटे शाकाहारी जानवरों को खाता है ।
- तेंदुओं में मेलेनज़िम एक आम घटना है, जसिमें जानवर की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जसिमें उसके धब्बे भी शामिल हैं ।
- मेलेनसिटिकि तेंदुए को प्रायः **ब्लैक पैंथर** कहा जाता है और गलती से इसे एक अलग प्रजातिमान लिया जाता है ।

■ **प्राकृतिकि आवास:**

- यह **उप-सहारा अफ्रीका** में पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे हसिंसों एवं भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वी एशिया तक वसित्त क्षेत्र में पाया जाता है ।
- **भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस फुस्का)** भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला तेंदुआ है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/leopard-poaching-in-chhattisgarh>

